



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072025-264913
CG-DL-E-23072025-264913

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3301]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 23, 2025/श्रावण 1, 1947

No. 3301]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 23, 2025/SHRAVANA 1, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2025

का.आ. 3374(अ).— केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 8क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

- | | |
|---|------------|
| (क) कैबिनेट सचिव | - अध्यक्ष; |
| (ख) केंद्रीय गृह सचिव | - सदस्य; |
| (ग) रक्षा सचिव | - सदस्य; |
| (घ) सचिव (समन्वय), कैबिनेट सचिवालय | - सदस्य; |
| (ङ) सदस्य और विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण | - सदस्य। |

2. राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति मुख्य आपदाओं से निपटने के लिए जिनका राष्ट्रीय प्रभाव है, नोडल निकाय के रूप में कार्य करेगी।

3. राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, किसी भी विशेषज्ञ या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या तो किसी संगठन से किसी भी अधिकारी को, संकट की प्रकृति के आधार पर, आपदा की खतरनाक स्थिति या उभरती आपदा स्थिति या आपदा के दौरान, समिति के कार्यों को करने में समिति की सहायता करने के लिए सहयोजित कर सकता है।
4. राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति किसी भी खतरनाक आपदा स्थिति या उभरती आपदा स्थिति या आपदा का मोचन करने के उद्देश्य से तैयारियों का मूल्यांकन करेगी और जहां आवश्यक हो, ऐसी तैयारियों को बढ़ाने के लिए निदेश देगी।
5. राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति आपदा मोचन के संबंध में भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरणों, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों का समन्वय और निगरानी करेगी।
6. राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति देश में आपदा मोचन के उचित समन्वय और निगरानी के लिए आवश्यक निदेश देगी।

[फा. सं. 30-1/2025-आ. प्र. -II]

डॉ. राजेश गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2025

S.O. 3374(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8A of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby constitutes a National Crisis Management Committee, consisting of the following members, for the purposes of said Act, namely: -

- | | |
|---|----------------|
| (a) Cabinet Secretary | - Chairperson; |
| (b) Union Home Secretary | - Member; |
| (c) Defence Secretary | - Member; |
| (d) Secretary (Co-ordination), Cabinet Secretariat | - Member; |
| (e) Member and Head of Department, the National Disaster Management Authority | - Member. |

2. The National Crisis Management Committee shall be the apex committee for dealing with situation of a major disaster, which has national ramifications.

3. The Chairperson of the National Crisis Management Committee may co-opt any expert or any officer either from the Central Government or the State Government or any organisation, depending on the nature of the crisis, to assist the Committee in performing its functions during the threatening disaster situation or emerging disaster situation or disaster.

4. The National Crisis Management Committee shall evaluate preparedness for the purpose of responding to any threatening disaster situation or emerging disaster situation or disaster and give directions, where necessary, for enhancing such preparedness.

5. The National Crisis Management Committee shall co-ordinate and monitor actions of the concerned Ministries or Departments of the Government of India, State Governments, National Authority, State Authorities, Governmental and Non-Governmental Organisations in relation to disaster response.

6. The National Crisis Management Committee shall give such directions as may be necessary for the proper co-ordination and monitoring of disaster response in the country.

[F. No. 30-1/2025-DM-II]

Dr. RAJESH GUPTA, Jt. Secy.